

जीवित होने के लिए मनुष्य का भोजन गृहण करता अनिवार्य है। भोजन के अभाव में मनुष्य का सही अवस्था कमज़ोर एवं रोग शुरू हो जाएगा।

शरीर में भोजन के कई कार्य होते हैं जिन्हें निम्न रूप से वर्णित किया जा सकता है:

1. शारीरिक कार्य

2. सामाजिक कार्य

3. सौन्दर्यानिक कार्य

1. भोजन के शारीरिक कार्य

भोजन मनुष्य की 'भूख' को शान्त करता है:

» मनुष्य बिना भोजन कोई भी कार्य करते में समर्प नहीं है। एक जटिल शारीरिक प्रक्रिया के उपरान्त व्यक्ति को भूख का अनुभव होता है। हमारा पाचन तन्त्र मस्तिष्क तक यह संदेश भेजता है कि हमें शारीरिक कार्यों द्वारा आपका सेवा की आवश्यकता है। मस्तिष्क इस संदेश की पहचान भूख के रूप में कर लेता है। तदापराकरण इसका शरीर में प्रभु का तीर अनुभव होता है। ऐसे साथ में यदि व्यक्ति को आहार प्राप्त हो तो उसकी भूख शान्त हो जाती है। एवं यह संसेच का अनुभव करता है। आपका न मिलने की स्थिति में व्यक्ति में अचल लक्षण जैसे सिर दर्द, कमज़ोरी, जी विस्तारान आदि अनुभव होने लगते हैं।

ऊर्जा प्रदान करना:

» विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के संचालन के लिए एवं क्रियाशील जीवन जीने के लिए मनुष्य को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा मनुष्य को भोजन में निवार पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन से प्राप्त होती है। यह पोषक तत्व दर्द दर्शन में अधिकारीक होकर दर्द को ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह ऊर्जा शरीर की ऐंथेक एवं अनेथिक क्रियाओं के सालज संचालन एवं सम्पादन हेतु आवश्यक है। घरेला, उत्तरा, दैनिक आदि मानवोंसीधी नवीनियतियों ऐंथेक क्रियाओं के अन्वयन जाता है। अनेथिक क्रियाओं जो शरीर में स्थान ही स्थानादित होती हैं जैसे हृदय का धड़कना, श्वेत दर्द, पाचन तत्व आदि आनन्दित आंगों का सुखान रूप से कार्य करता है।

» एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और इन्हें द्वारा आपका मनुष्य को समीक्षित करने की आवश्यकता होती है। शरीर के समीक्षित ऊर्जा है, अतः हमारे शरीर को समीक्षित ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट द्वारा प्राप्त होती है। साथ ही यह सुपाधित होती है। एक ग्राम वसा से हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा तत्व 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है।

शरीर का निर्माण एवं उत्तरों की टूट-फूट की वस्त्रात:

» भोजन का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है शरीर का निर्माण करना। शरीर की आवश्यकता यूनिटम ड्राई कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के लिए प्रोटीन, जल एवं अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। शरीर के निर्माण का कार्य जन्म से पूर्व ही प्रारम्भ हो जाता है एवं तब तक चित्त रहता है जब तक व्यक्ति का पूर्ण शारीरिक विकास नहीं हो जाता तथा व्यक्ति सम्पूर्ण लम्बाई एवं भार प्राप्त नहीं कर सकता। शरीर में कठोर वार उत्तरों की टूट-फूट होती रहती है। इनके पुनः निर्माण हेतु भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है।

» वयस्क व्यक्ति के शरीर में पोषक तत्वों की मात्रा केवल शारीरिक वृद्धि हेतु नहीं अधिकृत शारीरिक क्रियाओं को सुखान बनाए रखने हेतु एवं उत्तरों की टूट-फूट की वस्त्रात हेतु भी होती है। शैशवालया, बालवालया एवं नियोगालया में पोषक तत्व शरीर का निर्माण का कार्य सम्पादित करते हैं। शरीर निर्माण करने वाले प्रमुख पोषक तत्व हैं, प्रोटीन, खनिज लक्षण एवं जाग्रीती के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कौशिकीओं में होते यारों कई रासायनिक प्रक्रियाओं में भी प्रोटीन का विशेष स्थान है। शरीर का निर्माण की दूरी से कैलियम, फास्फोरेन, मैरीनियम, लैट्रिन लक्षण एवं आयोडीन जैसे खनिज लक्षण महत्वपूर्ण हैं।

शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करना:

» भोजन में उत्तरों की पोषक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करते हैं। विटामिन, खनिज लक्षण एवं प्रोटीन वे पोषक तत्व हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करते हैं। विटामिन एवं खनिज लक्षण तुकारामक पोषक तत्व के रूप में जाने जाते हैं। विटामिन विशेष विटामिन अथवा खनिज लक्षण की कमी से शरीर में रोग उत्पन्न हो सकते हैं जैसे विटामिन 'ए' की कमी के कारण रसीदी, लैट्रिन लक्षण की कमी से एप्सिलिन रोग आदि। यदि आहार द्वारा शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन एवं खनिज लक्षण प्राप्त हो तो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है।